

May 30, 2025

To
The General Manager
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jee Jee Bhoy Tower
Dalal Street,
Fort Mumbai – 400001
Scrip Code: 544302

The General Manager
Department of Corporate Services,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kural Complex, Bandra
(East), Mumbai – 400051
Symbol: INNOVANA

Sub.: Newspaper advertisement of the Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter and financial year ended on March 31, 2025.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of the Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter and financial year ended on March 31, 2025 published in the English and Vernacular Language newspaper on May 30, 2025.

You are kindly requested to take the same on record.

Thank You,

For Innovana Thinklabs Limited

Company Secretary & Compliance Officer

M. No. - ACS 50483



## सिंटेक्स ने अत्यधिक तापमान के लिए भारत का पहला 'दूली' इंसुलेटेड वॉटर टैंक पेश किया

50 मिमी पॉलीयूरेथेन फोम एक प्रभावी इन्सुलेटर के रूप में कार्य करता है, जो संग्रहीत पानी के तापमान को उसकी मूल स्थिति के करीब बनाए रखता है

विजनेस रेमेडीज/जवपर

भारत की अग्रणी और विश्वसनीय गुणवत्ता वाले वॉटर स्टोरेज समाधान निर्माता कंपनी Trupuf की पहुंच का विस्तार कर रही है। यह भारत का पहला 'टरूली' इन्सलेटेड पानी का टैंक है क्योंकि इस समय पूरे भारत में गर्मी की लहर के कारण तापमान बढ़ रहा है। कठोर मौसम की स्थिति को सहते के लिए डिजाइन किया गया 50 मिमी पॉलीयरेथेन फोम एक प्रभावी इन्सुलेटर के रूप में कार्य करता है जो संग्रहीत पानी के तापमान को उसकी मूल स्थिति के करीब बनाए रखता हैढ़ टैंक 100 प्रतिशत वर्जिन फूड-ग्रेड प्लास्टिक से तैयार किया गया है. जो स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और र्साइकल प्लास्टिक से जुड़ी संभावित हानियों से बचाव करता है। इसमें वायरस, कैस्टीरिया, फफूंदी, एली और काई विरोधी गुण भी हैं जो इसे परिवारों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प बनाते हैं। तीव गर्मी और कठोर ठंड दोनों में



मैनेविंग व्ययन्तर और शिंटेकर के डायरेक्टर यशोवर्धन अग्रवाल

काम करने के लिए डिजाइन गया, Trupuf तेजी याहकों की बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं के बीच पसंदीदा विकल्प बन रहा है। जबकि यह गर्मियों में प्रासंगिक है, Trupuf का इन्सुलेशन इसे अत्यधिक सर्दियों के लिए भी उपयक्त बनाता है - भारी स्टील टैंकों के लिए एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है। लंबे समय तक धूप में रहने से संग्रहित पानी काफी गर्स हो जाता है और काई निर्माण तथा जीवाणु वृद्धि के लिए आदर्श वातावरण बन जाता है। परिणामस्वरूप दुर्गंध दैनिक जल उपयोग और स्वच्छता को प्रभावित करती है। Trupuf को



थमंस की तरह काम करने वे लिए डिज़ाइन किया गया है जलवाय परिस्थितियों की परवाह किए बिना पानी के मूल तापमान को बनाए रखता है। अपने धिकर मेक निर्माण और यूवी-स्टेबलाइउड बाहरी आवरण के साथ, Irupuf सूरज की रोशनी को रोकता है और जलकार्ड के निर्माण को रोकता है। टैंक 'हेक्सा बोल्ट' के साथ अद्वितीय सेल्फ-लॉकिंग डक्कन से सुसज्जित है जो बाहरी हस्तक्षेप से शीर्ष को सुरक्षित करता है। सेंट्रल इन्सुलेशन लेयर गर्मी हस्तांतरण को कम करती है, जिससे टैंक पानी को उसके मूल भरने के तापमान पर बनाए रखने में सक्षम होता है। आंतरिक परीक्षण से पता चलता है कि

परिस्थितियों में भी अपने मूल भरने के तापमान से 0.5 डिग्री मेल्सियम से अधिक नहीं Trupuf 15 साल की वारंटी के साथ आता है, जो

सिटेक्स दारा अपने गाहकों को

लगातार दी जाने वाली गुणवत्ता और स्थायित्व को दर्शाता है। संस्थानों, शैक्षिक सुविधाओं, कॉरपोरेटस, बंगलों और क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। Trupuf हर विशाल पनंबर बेस को भरोसेमंट समाधान प्रदान करता है। सिटेक्स की विश्वसनीय व्यापक वितरण नुराजरा।, जान-नेटवर्क और उत्पाद नवाचार की विरासत द्वारा समर्थित, बदलती जलवायु स्थितियों के बीच, यह उत्पाद प्रभावित क्षेत्रों में

लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सिंटेक्स के डायरेक्टर यशोवर्धन अग्रवाल ने कहा. कि स्तापवन अप्रवास न फान, क सिटेक्स Trupuf को एक बहुत ही वास्तविक, रोजमर्रा की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था, पानी जो गर्मियों

उपयोगिता साबित कर रहा है।

करने के लिए बहुत गर्म और असविधाजनक हो जाता है। देश में बढ़ते तापमान को देखते हुए हमारा फोकस ऐसा समाधान देने पर है जो पानी के स्टोरेज को आसान और विश्वसनीय बनाए। हमारे लिए, स्मार्ट वॉटर स्टोरेज ही स्वस्थ घरों और समदायों की

Trupuf स्थायित्व, स्वच्छता और थर्मल इन्सुलेशन को एक साथ लाता है जो वास्तव में लोगों को कठोर मौसम की स्थिति में संग्रहीत पानी का अनुभव करने के तरीके में सुधार करता है। सिंटेक्स जहहशहद को वर्तमान में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान सहित उच्च तापमान वाले बाजारों में सिऋय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ जलवायु-तैयार वॉटर स्टोरेज समाधानों की मांग बढ़ रही है। प्रत्येक क्षेत्र गर्मियों में अनूठी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छत पर खुले में रहने और राजस्थान में अत्यधिक गर्मी तक Truput अपने थिकर मेक इंसुलेशन डिज़ाइन के साथ इन

#### डायसन ने किया खुलासा : भीषण गर्मी चुपचाप आपके घर की हवा को जहरीला बना रही है

डायसन, जो अपने अत्याधनिक एयर प्यूरीफायर और घरेलू तकनीकी नवाचारों के लिए जाना जाता है, ने गर्मियों के एक कम चर्चित खतरे-इनडोर एयर पॉल्यूशन (घर के अंदर की वायु पदषण )-की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जब हम वायु पट्यम के बारे में मोचते हैं तो हमारे मन में आमतौर पर सर्दियों के दौरान शहरों में फैले धंध और स्मॉग की छवि उभरती है। साल के अंत में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग अक्सर घर की हवा को स्वच्छ रखने के लिए एयर एक उतनी ही गंभीर समस्या को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है क्ल गर्मियों के दौरान चलने वाली हीटवेट्स किस प्रकार हमारे घर के अंदर की हवा को प्रदक्षित कर

जैसे-जैसे भारत में गर्मियों का चरम समय नजदीक आ रहा है, देश के कई शहरों में लू चलने की संभावना है। दिख्ली में दय याल अप्रैल का महीना अब तक का सबसे गर्म दर्ज किया गया. जहाँ तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस



लोग ल को केवल बाहरी मानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अत्यधिक गर्मी घर के अंदर की हवा की गणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। बढ़ता तापमान घरेलू वस्तुओं से हानिकारक रसायनों का उत्सर्जन तेज कर देता है और वेंटिलेशन जिससे घर एक प्रकार से प्रदर्धित

डायसन के डिजाइन इंजीनियर बैडली फिशविक बताते हैं. 'अत्यधिक गर्मी घर के अंदर हवा में मौजूद विषैले तत्वों के स्तर को बढ़ा सकती है। इनमें सबसे बड़ा योगदान वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंडस (वीओसी) का होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो कि रंगदीन गैस है और घरेलू वस्तुओं जैसे फर्नीचर, पेंट, क्लीनर, वॉलपेपर और फाइबरबोर्ड से निकलती है। अत्यधिक गर्मी के दौरान घर की हवा को बेहतर बनाए

हवा का जाल बन जाते हैं।

प्राकृतिक क्लीनिंग उत्पादों का उपयोग करें : रसोई. बाथरूम और फर्नीचर की सफाई के लिए पर्यावरण-हितेषी विकल्प अपनाएं ताकि वीओसी का उत्सर्जन कम हो।

नियमित रूप से वैक्यूम करें : सोफों और गहों से तड़ने वाली घंटों तक हवा में तैरती रहती है। नियमित वैक्यमिंग से इन कणों की मात्रा को कम

किया जा सकता है। हाइडेटेड रहें : पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर शरीर को गर्मी और श्वसन समस्याओं से बचाया जा सकता है। दिन में कम से कम या पत्कोद्धन से बचें।

एयर प्यूरिफायर का उपयोग रेण और प्रक्रियंत्रेरेट कार्बन फल्टिर युक्त डायसन एयर प्यूरिफायर 0.1 माइक्रॉन जितने छोटे कणों को भी ०० ०५ परिपात तक दशने में सक्षम हैं, जिनमें वीओसी और पत्नर्जन शामिल हैं।

समय है गर्मियों में भी हवा की गणवना को पाथमिकता देने का हीटवेव केवल बाहरी हवा को जर्वी सरिन्द स्पारे घरों की हता को भी चुपचाप प्रदूषित करती है।

#### परिस्थितियों को पूरा करता है।

#### पानी का तापमान कठोर जलवाय हिन्दुस्तान ज़िंक ने मेन्सट्रुअल हाइजीन डे पर बालक एवं बालिकाओं को जागरूक किया

मेन्सद्रुअल हाइजीन डे यानि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर हिन्दुस्तान ज़िंक द्वारा अपनी परिचालन इकाईयों के आस पास के क्षेत्र में यह दिन मनाकर वालिकाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कंपनी ने बालिकाओं को मासिक धर्म के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता बढाने के उद्देश्य से विभिन्न राजकीय विद्यालयों में व्यापक अभियान व ता सत्र आयोजित किए। हिन्दस्तान जिंक के स्वास्थ्य



सेवा कार्यक्रम के तहत ममता मेन्सटरू अल हाइनजीन मैनेजमेंट के सहयोग से उदयपुर के जावर, राजसमंद के दरीबा चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया और भीलवाडा के आगुचा में शिक्षा विद्यालयों में 582 बालक एवं

बालिकाओं को सत्रों के माध्यम से जागरूक किया। इस वर्ष की वर्ल्ड के अनरूप किशोरियों के बीच जागरूकत बढाने और स्वस्थ प्रथाओं को वा देने के लिए आकर्षक और शैक्षिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। सत्र में प्रतिभागियों के मौजूदा ज्ञान का आकलन करने के लिए एक पूर्व-परीक्षण हुआ। महिला डॉक्टर ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन एप्रन का उपयोग कर किया, जिसमें मासिक धर्म की जैविक प्रक्रिया, मासिक धर्म चक्र और आवश्यक स्वच्छता प्रथाओं के बारे में बताया गया।

आम धारणाओं और गलत सोच को दूर करने के लिए, एक त्वरित मिथक-विरोधी सत्र आयोजित किया गया और बालिकाओं को सत्र में अधिक श्रामिल करने के लिए कार्ड टूल का उपयोग किया गया। विशेष रूप से डिजाइन किए गए एमएचएम थीम वाले सांप और मीडी मैट का उपयोग कर रूचिकर और इंटरैक्टिव फ्लोर गेम के माध्यम से महत्वपुण स्वच्छता संदेशों को आकर्षक तरीके से व्यक्त किया। सत्र मे एनीमिया के लक्षण और रोकथाम को भी शामिल किय गया. जिसमें थकान और पीली त्वचा जैसे लक्षणों की पहचान

करने के लिए मार्गदर्शन

यक्तियों द्वारा समर्थित है।

#### र्डनाणी मार्बल्स एंड इंडस्टीज लिमिटेड

CIN No.: L14101R11994PLC008930 पंजीकृत कार्यालयः आरजी नमा 1312, प्रत्यस्थ-मीलयात्र प्रज्ञानं मानाजी तो पोदले के पास चिलोजप्र (राज्य) 312001, मारत ई-मेलः inanimar ble@gmail.com, दूरकाण नंतरः 0091-1472-240111 31 मार्च 2025 को समाप्त विमासी और वर्ष के अंकेकित चित्तीय परिणामी का चिवरण

	31 414 5053 AN MAISH KIA101	aut da da a	and racin			
ı				(3	चीरत को छोड़कर	रपए तालों में
ø.	foore		समाप्त विमादी		वनार	वर्ष
₹ί.		31.03.2025 (s/b/bso)	31.12.2024 (अन-अंकेब्रिस)	31.03.2024 (sidsfam)	31.03.2025 (s/ds/dsen	31.03.2024 (stitsfara)
1.	परिवालन से कुल आव	1127.80	1,029.35	1853.39	4,407.64	5,869.83
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (कर, अस्तवाराण					
_	और/या असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	(68.35)	(21.44)	167.41	105.86	197.96
3.	कर से पड़ले की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(डानि) (अलावारण और/वा अलावारण वस्तुओं के बाद)	(68.15)	(21.44)	167.41	105.86	197.96
⊢		(08.35)	121.440	167.41	105.80	197.96
4.	कर के बाद की अर्वांच के लिए सुद्ध लाम/(सनि) (अस्तवारण और/वा असधारण वातुओं के बाद)	(70.42)	(13.72)	126.88	70.63	157.43
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आव (कर के बाद की अवधि के लिए लाग/(हानि) और अन्त न्वापक आव (कर के बाद) शामिल)	(76.64)	(20.22)	127.65	47.65	172.36
6.	इविचटी रोवर पूंजी	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
7.	पिछले लेखा वर्ष की बेलेंस शीट के अनुसार पुनर्गुल्यांकन दिवर्ध को खेड़कर दिवर्ध				4,991.66	4.951.44
8.	प्रति शेवर आय (इ. २/- प्रत्वेक) (जारी और बंद परिवातन के लिए)					
_	(क) मृत	(0.38)	(0.07)	80.0	0.38	0.85
$\overline{}$	(ध) तकुव्रत	(0.38)	(0.07)	0.68	0.38	0.85
	पिनों उसोक सेवी के (सूचीबद्धता दक्तित और प्रवादीकरण अव किन किमही/वार्थिक विशोव परिणामों के विश्वत प्रारूप का सर					
				म्बा कर श्रेपूरण प्रश	ध्य स्टाक हत्तसर	त्र का वारसङ
	one be aimedia, com alla misali alla danna e menerci meneric					

कृतः केव्दन सुरेष कुमार ईनामी प्रवंश निदेशक (DIN: 00219702)

#### सेम्बकॉर्प को भारत में दूसरी सौर-स्टोरेज हाइब्रिड परियोजना मिली

बिजनेस रेमेडीज/सिंगापर

सेम्बकॉर्प इंडस्टीज (Sembcorp) ने सहायक कंपनी सेम्बकॉर्प गीन इंफा प्राइवेट लिमिटेड (SGIPL) के माध्यम से 300MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण साथ 150 MW सौर कर्जा परियोजना अनुर्बोधित क्षमता के लिए प्रसानेवीपन लिसिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त किया है। यह बिल्ड-ओन-ऑपरेंट परियोजना 600MW/ 2.4GWh BESS क्षमता वाली



अंतरराज्यीय टांसमिशन सिस्टम से SIVN की 1.2GW निविदा का हिस्सा क्रय समझौते (पीपीए) के निष्पादन के अधीन तथा परियोजना के पूरा होने पर, यह सौर ऊर्जा की आपर्ति करेगा तथ बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करेगा। पीपीए पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 24 महीनों के भीतर वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना को आंतरिक निधियों तथा ऋण के मिश्रण से विनयोषित किया जाएगा। यह भारत में सेम्बकॉर्प की दूसरी सौर-ऊर्जा भंडारण हाइबिड परियोजना है. जिससे भारत मे क्षमता 6.3GW तक बढ़ गई है। वैश्विक स्तर पर, सेम्बकॉर्प का कुल नवीक्सणीय पोर्टफोलियो 17 7GW1 भी शामिल है जो परा होने के लिए

#### innovana®

सीआईएन: L72900RJ2015PLC047363

पंजीकृत कार्यात्यः प्लॉट नंबर डी-41, पत्रकार कॉलोनी, जवाहर नगर के पास, मोती डुंगरी विस्तार योजना, राजापार्क, जयपुर, राजस्थान - 302 004; संपर्क नंबर: +91-141-4919128/29; ई-मेल आईडी: cs@innovanathinklabs.com; वेबसाइट: www.innovanathinklabs.com

#### 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अकेंक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का उद्घरण

क्र. सं.	विवरण	ਲਸਾਸ ਹੈ	तमही		समाप्त व	ৰ্ষ
		31-03-2025	31-12-2024	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2024
		(अकेक्षित)	(अनअकेबित)	(अकेबित)	(अकेकित)	(अकेंब्रित)
1.	परिचालनों से कुल राजस्व	2,831.85	2,998.38	2,606.27	11,385.68	11,521.17
2.	परिचालन लाभ (पीबीआईडीटी)	1,666.69	1,766.17	1,178.35	6,656.91	5,928.83
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	1,364.79	1,452.34	986.44	5,532.01	5,301.09
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	1,150.29	1,183.55	883.76	4,470.92	4,125.77
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	1,156.46	1,183.55	928.35	4,477.09	4,170.36
6.	इविषटी शेवर पूंजी ( 10/- रुपए प्रति)	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
7.	अन्य इक्विटी (रिजर्व)		-	-	18,495.04	14,281.21
8.	प्रति शेवर आवः					
	आधारभूत (रूपये में)	5.61	5.77	4.31	21.81	20.13
	तनुकृत (रुपये में)	5.61	5.77	4.31	21.81	20.13
टिप्पणी	: सेबी (एलओडीआर) के विनियम 47(1)(बी) के उ	प्रमुपालन में कंपनी के	एकल वित्तीय परिणामों	की सूचना। (रुपये ल	खों में, जब तक अन्य	व्रा न कहा गया हो)

क्र.सं.	विवरण	रामास तिमाडी			रामास वर्ष	
		31-03-2025	31-12-2024	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2024
		(अकेक्षित)	(अनअकेक्षित)	(अकेकित)	(अकेंब्रित)	(अकेकित)
1.	व्यवसाय	1,078.17	1,111.08	570.25	4,327.85	4,851.33
2.	परिचालनों से कुल राजस्व	1,209.52	1,241.67	857.24	5,161.63	5,883.02
3.	परिचालन लाभ (पीबीआईडीटी)	898.73	1,028.64	529.25	4,153.23	4,181.70
4.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	868.30	956.98	482.13	3,973.28	4,028.02
5.	कर पश्चात अवधि के लिए श्रद्ध लाभ/(हानि)	643.40	703.14	379.54	2,957.91	3,031.87

\* सेबी (सुचीबद्धता द्वियत्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनयम, २०१५ के विनयमन ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ द्वयर उपरोक्त समाप्त तिमाही और सम वर्ष के अकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण हैं। अकेक्षित एकल और समेकित तिमाही और वर्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों यांनी www.nseindia.com पर एवं www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.innovanathinklabs.com पर श्री

स्थानः जयपुर विनांक: 29 मई, 2025



निवेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से चंदन गर्ग अध्यक्ष और प्रबंध निवेशक डीआईएन: 064221150

### भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति दूध पेय पदार्थ के तौर पर पीता है : गोंदरेज जर्सी

विज़नेस रेमेडीज/नई दिस्सी

गोदरेज जसीं, विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट, 'बॉटम्स अप... इंडिया सेज चीयसं ट् मिल्क।' के साथ भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती पसंद का जरन मना रहा है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष से पता चलत है कि देश में हर तीन में से एक व्यक्ति ्रान परा ग १९ तान म स एक व्यक्ति दूध पेय पदार्थ (बेबरेज) के तौर पर पीता है।

इसके अलावा, 50 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता घर पर ही फ्लेवर्ड मिल्क पीना या अपने दूध में फ्लेवर मिलाना पसंद करते हैं। भारतीय माता-पिता भी अपने बच्चों को पौष्टिक ताज़गी देने के लिए सुविधाजनक और आनंददायक तरीके के रूप में फ्लेवर्ड मिल्क का विकल्प चन रहे हैं. जिनमे से 45 प्रतिशत इसे दिन में देते हैं और 44 प्रतिशत इसे खेल के समय ताजगी देने वाले विकल्प के रूप में इस्तेमाल



करते हैं। गोदरेज जसीं के मुख्य करत हा पायरण जन्म न जुड़ा कार्यकारी, भूपेंद्र सूरी ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर अपनी टिप्पणी में कहा कि गोदरेज जर्सी में, हम उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रांड स्वाद, ताजगी और पोषण को समान रूप से प्राथमिकता देकर नई पीढ़ी के लिए दूध के महत्व को पुनर्परिभाषित कर रहा है। गोदरेज

जर्सी बादाम दुध केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि यह एक स्वस्थ, पौष्टिक विकल्प है जो दूध को न केवल विश्व दुग्ध दिवस पर बल्कि हर दिन पसंदीदा पेय बनाता है। उन्होंने कहा कि भारत में पहले की अपेक्षा अधिक विचारशील उपभोग के बढ़ते चलन के बीच दूध से जुड़ी धारणा भी बदल रही है। यह अब केवल परंपरा से नहीं जुड़ा है बल्कि यह नवोन्मेष और अ जीवन शैली के भी अनुरूप है। गोदरेज जर्सी इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है, दूध को रोजमर्रा के पोषण का प्रिय बनाने के लिए विरासत को नए विचारों से जोड़ रहा है।

'बॉटम्स अप…इंडिया सेज् चीयर्स मिल्क!' शीर्षक वाले इस सर्वेक्षण दिली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों से जानकारी इकड़ की गई, जिसमें डेयरी उत्पादों की प्राथमिकताओं और गणवत्ता से जडी अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। **FINANCIAL EXPRESS** 





Haq, ek behtar zindagi ka.

# **Notice For Declaration Of** Income Distribution Cum Capital Withdrawal

UTI Conservative Hybrid Fund (Erstwhile UTI Regular Savings Fund)

Name of the Plan	Quantum of IDCW (Gross Distributable Amt.)*  % ₹ per unit		Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on May 27, 2025 (per unit)	
				1051 351/85		
UTI Conservative Hybrid Fund -Regular Plan - Monthly Income Distribution cum capital Withdrawal option (IDCW)	- 0.80%	0.0800	Monday June 02.	₹10.00	17.7161	
UTI Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Monthly Income Distribution ours capital Withdrawal option (IDCW)	0.00%	0.0000	2025		19.9000	

Distribution of above IDCW is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable). Income distribution will be made, net of tax deducted at source

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal options whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of IDCW to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of IDCW.

Mumbai

May 28, 2025 Toll Free No.: 1800 266 1230

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867).

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual Fund Distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

# Thinklabs Limited

# innovana INNOVANA THINKLABS LIMITED

CIN: L72900RJ2015PLC047363

Registered Office: Plot No. D-41, Patrakar Colony, Near Jawahar Nagar, Moti Dungri Vistar Yojna, Raja Park, Jaipur, Rajasthan - 302004

Website: www.innovanathinklabs.com E-mail: cs@innovanathinklabs.com Tel. 0141-4919128, 29 Extract of Audited Consoldiated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2025

(Rs. in Lacs, unless otherwise stated )

S.	Particulars		<b>Quarter Ended</b>	Year Ended		
No.		31-Mar-25 (Audited)	31-Dec-24 (Unaudited)	31-Mar-24 (Audited)	31-Mar-25 (Audited)	31-Mar-24 (Audited)
1	<b>Total Income From Operations</b>	2,831.85	2,998.38	2,606.27	11,385.68	11,521.17
2	Operating Profit (PBIDT)	1,666.69	1,766.17	1,178.35	6,656.91	5,928.83
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax	1,364.79	1,452.34	986.44	5,532.01	5,301.09
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax	1,150.29	1,183.55	883.76	4,470.92	4,125.77
5	Total Comprehensive Income for the period	1,156.46	1,183.55	928.35	4,477.09	4,170.36
6	Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
7	Other Equity (Reserves)		*	*	18,495.04	14,281.21
8	Earning Per Share: Basic (in Rs.)	5.61	5.77	4.31	21.81	20.13
	Diluted (in Rs.)	5.61	5.77	4.31	21.81	20.13

Note: \*Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

S.	Particulars		Quarter End	Year Ended		
No.		31-Mar-25 (Audited)	31-Dec-24 (Unaudited)	31-Mar-24 (Audited)	31-Mar-25 (Audited)	31-Mar-24 (Audited)
1	Turnover	1,078.17	1,111.08	570.25	4,327.85	4,851.33
2	Total Income From Operations	1,209.52	1,241.67	857.24	5,161.63	5,883.02
3	Operating Profit (PBIDT)	898.73	1,028.64	529.25	4,153.23	4,181.70
4	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax	868.30	956.98	482.13	3,973.28	4,028.02
5	Net Profit / (Loss) for the period After Tax	643.40	703.14	379.54	2,957.91	3,031.87

\*The above is an extract of detailed format for Quarter and Year Ended Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Quarter and Year Ended Financial Results are available on websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on Company's website at www.innovanathinklabs.com.

Place: Jaipur Date: 29 May 2025



Chandan Garg Chairman and Managing Director DIN: 06422150

### Liberty General Insurance Limited

Unit 1501&1502, 15th Floor, Tower 2, One International Center, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400013 Phone: +91022 6700 1313 Email: care@libertyinsurance.in, Toll Free: 1800 266 5844 IRDA registration number: 150 I CIN: U66000MH2010PLC209656

FORM NL-1-B-RA
Name of the Insurer: Liberty General Insurance Limited
Registration No. 150 and Date of Registration with the IRDAI 22.05.2012
REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

(Amount in Rs Lakhs)	

		Fire		Marine		Miscellaneous		Total	
	Particulars	Year Ended 31st March 2025	Year Ended 31st March 2024						
1	Premiums earned (Net)	1,632	3,026	2,177	3,074	2,12,332	1,83,085	2,16,141	1,89,185
2	Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	20	16	6	7	579	419	605	442
3	Interest, Dividend & Rent – Gross	1,500	1,395	246	359	22,429	20,756	24,175	22,510
4	Other			8 8	8 -9	8 3	7 - 1		
	(a) Other Income								
	(i) Miscellaneous Income	0	_	0		51	113	51	113
	(b) Contribution from the Shareholders' Account					10 0			
	(i) Towards Excess Expenses of Management	-	-	14	145	9,300	9,488	9,314	9,633
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/ WTD/Other KMPs	0	1	2	9	214	549	216	559
	TOTAL (A)	3,152	4,438	2,445	3,594	2,44,905	2,14,410	2,50,502	2,22,442
6	Claims Incurred (Net)	829	963	2,818	2,858	1,70,431	1,38,609	1,74,078	1,42,430
7	Commission	131	(310)	557	787	50,127	38,046	50,815	38,523
8	Operating Expenses related to Insurance Business	67	290	283	483	34,503	33,543	34,853	34,316
9	Premium Deficiency	-	-	- 1	- 1	- 5	- 1	- "	-
	TOTAL (B)	1,027	943	3,658	4,128	2,55,061	2,10,198	2,59,746	2,15,269
10	Operating Profit/(Loss) C= (A - B)	2,125	3,495	(1,213)	(534)	(10,156)	4,212	(9,244)	7,173
11	APPROPRIATIONS			8		60 63			
	Transfer to Shareholders' Account	2,125	3,495	(1,213)	(534)	(10,156)	4,212	(9,244)	7,173
	Transfer to Catastrophe Reserve	-	-	-11	-	- 00	- 1	- "	-
	Transfer to Other Reserves (to be specified)	-	_	-	_	-	_	[	_
	TOTAL (C)	2,125	3,495	(1,213)	(534)	(10,156)	4,212	(9,244)	7,173

FORM NL-3-B-BS

Registration No. 150 and Date of Registration with the IRDAI 22.05.2012

Name of the Insurer: Liberty General Insurance Limited BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025 (Amount in Rs Lakhs)

Amount			
Particulars	Schedule Ref. Form No.	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
SOURCES OF FUNDS	Įį.		XII
SHARE CAPITAL	NL-8	1,13,187	1,08,623
SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		-	
RESERVES AND SURPLUS	NL-10	1,00,648	74,812
FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
-Shareholders' Funds		33	30
-Policyholders' Funds		128	128
BORROWINGS	NL-11	-	-
TOTAL		2,13,996	1,83,593
APPLICATION OF FUNDS			
INVESTMENTS-Shareholders	NL-12	92,083	76,493
INVESTMENTS-Policyholders	NL-12A	3,57,298	3,26,322
LOANS	NL-13	-	<u>-</u>
FIXED ASSETS	NL-14	4,537	3,130
DEFERRED TAX ASSET		-	-
CURRENT ASSETS			
Cash and Bank Balances	NL-15	6,128	851
Advances and Other Assets	NL-16	54,460	34,982
Sub-Total (A)	ji	60,588	35,833
DEFERRED TAX LIABILITY		-	T -
CURRENT LIABILITIES	NL-17	3,01,038	2,58,930
PROVISIONS	NL-18	1,15,381	1,02,445
Sub-Total (B)	Ú	4,16,419	3,61,375
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		(3,55,831)	(3,25,542)
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written			
off or adjusted)	NL-19	-	
DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		1,15,909	1,03,190
TOTAL		2,13,996	1,83,593

# Disclosure

- 1 Public disclosure is made in accordance with IRDA circular No. IRDAI/F&A/CIR/MISC/256/09/2021 dated 30th September, 2021 2 The above financial results have been audited by the Joint Statutory Auditors of the Company and were approved by the Audit Committee and by Board of Directors on 15th May 2025.
- 3 Previous year's figures have been regrouped/reclassified whereever necessary.



(Amount in Rs Lakhs)

Name of the Insurer: Liberty General Insurance Limited Registration No. 150 and Date of Registration with the IRDAI 22.05.2012 PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

FORM NL-2-B-PL

	Particulars	Year Ended 31st March 2025	Year Ended 31st March 2024
1	OPERATING PROFIT/(LOSS)		
	(a) Fire Insurance	2,125	3,495
	(b) Marine Insurance	(1,213)	(534)
	(c) Miscellaneous Insurance	(10,156)	4,212
2	INCOME FROM INVESTMENTS		
	(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	6,353	5,400
	(b) Profit on sale of investments	156	104
	(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	-	(0)
	(d) Amortization of Premium / Discount on Investments	(272)	(270)
3	OTHER INCOME	<u> </u>	` '
3	(a) Interest on Income Tax Refund	-	21
	TOTAL (A)	(3,007)	12,428
4	PROVISIONS (Other than taxation)	*	
•	(a) For diminution in the value of investments	-	
	(b) For doubtful debts	-	
	(c) Others (to be specified)	-	
5	OTHER EXPENSES		Ť .
•	(a) Expenses other than those related to Insurance Business	-	
	(b) Bad debts written off	-	
	(c) Interest on subordinated debt	-	
	(d) Expenses towards CSR activities	-	6
	(e) Penalities	2	44
	(f) Contribution to Policyholders' A/c		
	(i) Towards Excess Expenses of Management	9,314	9,633
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs	216	559
	(iii) Others	-	
	(g) Others		1
	(i) Directors' Sitting Fees	110	75
	(ii) Directors' Expenses	8	11
	(iii) Investment Expenses	54	7
	(iv) Shares related Expenses	8	3
	TOTAL (B)	9,712	10,338
6	Profit/(Loss) Before Tax	(12,719)	2,090
7	Provision for Taxation	-	
8	Profit / (Loss) after tax	(12,719)	2,090
9	APPROPRIATIONS	(12,110)	
0	(a) Interim dividends paid during the year	-	
	(b) Final dividend paid	-	
	(c) Transfer to any Reserves or Other Accounts (to be specified)	-	
	Balance of profit/ loss brought forward from last year	(1,03,190)	(1,05,280)
	Balance carried forward to Balance Sheet	(1,15,909)	(1,03,190)

#### FORM NL-20-ANALYTICAL RATIOS SCHEUDLE Name of the Insurer: Liberty General Insurance Limited Analytical Ratios for Non-Life companies

SI. No.	Particular	Year Ended 31st March 2025	Year Ended 31st March 2024
1	Gross Direct Premium Growth Rate	4%	10%
2	Gross Direct Premium to Net worth Ratio	2.29	2.69
3	Growth rate of Net Worth	22%	3%
4	Net Retention Ratio	90%	88%
5	Net Commission Ratio	22%	20%
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	39%	36%
7	Expense of Management to Net Written Premium Ratio	38%	37%
8	Net Incurred Claims to Net Earned Premium	81%	75%
9	Claims paid to claims provisions	61%	62%
10	Combined Ratio	118%	113%
11	Investment income ratio	7.16%	7.04%
12	Technical Reserves to net premium ratio	1.51	1.55
13	Underwriting balance ratio	(0.20)	(0.13)
14	Operating Profit Ratio	-9%	-1%
15	Liquid Assets to liabilities ratio	0.17	0.12
16	Net earning ratio	-6%	1%
17	Return on net worth ratio	-13%	3%
18	Available Solvency Margin Ratio to Required Solvency Margin Ratio	1.75	1.76
19	NPA Ratio		
	Gross NPA Ratio	NIL	NIL
	Net NPA Ratio	NIL	NIL
20	Debt Equity Ratio	NIL	NIL
21	Debt Service Coverage Ratio	NIL	NIL
22	Interest Service Coverage Ratio	NIL	NIL
23	Earnings per share	(1.16)	0.19
24	Book value per share	8.65	7.39

1. Net worth definition to include Head office capital/Assigned Capital for Reinsurance branch













